

**CERTIFICATE IN BUSINESS SKILLS (CBS)/DIPLOMA
IN PRODUCTION OF VALUE ADDED PRODUCTS
FROM CEREALS, PULSES AND OILSEEDS
(DPVCPO)/DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS
FROM FRUITS AND VEGETABLES
(DVAPFV)/DIPLOMA IN WATERSHED MANAGEMENT
(DWM)/DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY
(DDT)/DIPLOMA IN MEAT TECHNOLOGY (DMT)**

(For Non 10+2)

Term-End Examination

December, 2021

PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN COMMERCE

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

व्यवसाय कौशल में प्रमाण-पत्र (सी.बी.एस.)/अनाजों, दालों एवं तिलहनों से मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन में डिप्लोमा (डी.पी.वी.सी.पी.ओ.)/फलों एवं सब्जियों से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा (डी.वी.ए.पी.एफ.वी.)/जलसंभर प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.डब्ल्यू.एम.)/डेरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डी.डी.टी.)/मांस प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डी.एम.टी.)

(बिना 10+2)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2021

पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

General Instructions :

Preparatory Course in Commerce (PCO-01)

Questions 1 – 50

- (i) *This is an objective type question paper. Options for the correct answer must be marked only in OMR sheet.*
- (ii) *All questions are **compulsory**.*
- (iii) *The question paper consists of **50** questions, each of which carries **one** mark.*
- (iv) *Each question has four alternatives, one of which is correct. Write the Sl. No. of your correct alternative / answer below the corresponding question number in the OMR sheet and then mark the rectangle for the same number in that column. If you find that none of the given alternatives is correct then write 0 and mark in column 0.*
- (v) *Do not waste time in reading the whole question paper. Go on solving questions one by one. You may come back to the left out questions, if you have time at the end.*

- (i) यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र है । प्रश्नों के सही विकल्प केवल OMR शीट में लिखिए ।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में 50 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है ।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है । ओ.एम.आर. शीट में निर्देशानुसार सही विकल्प / उत्तर का क्रमांक संगत प्रश्न संख्या के नीचे लिखें और फिर उसी क्रमांक के आयत पर उसी कॉलम में चिह्न लगाएँ । अगर आप पाएँ कि कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 0 लिखें और कॉलम 0 में चिह्न लगाएँ ।
- (v) पूरे प्रश्न-पत्र को पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए । एक के बाद एक प्रश्न को करते जाइए । यदि बाद में समय रहे, तो बचे हुए प्रश्नों को दुबारा देखा जा सकता है ।

1. Furniture purchased should be debited to :
 - (1) Furniture Account
 - (2) Goods Account
 - (3) Cash Account
 - (4) Premises Account

2. Ledger Folio is the column in :
 - (1) Journal
 - (2) Trading Account
 - (3) Manufacturing Account
 - (4) Profit and Loss Account

3. Which one of the following accounts is a Nominal Account ?
 - (1) Krishna's Account
 - (2) Loan from Krishna's Account
 - (3) Wages Account
 - (4) Vehicle Account

4. Which principle requires that the same Accounting method should be used from one Accounting year to the next ?
 - (1) Consistency
 - (2) Matching
 - (3) Conservatism
 - (4) Materiality

5. The concept of Conservatism takes into account :
 - (1) All expected income and losses
 - (2) All expected income but no losses
 - (3) All expected losses but no expected income
 - (4) No expected profits and losses

6. A business has Liabilities of ₹ 20,000 and Owner's equity is ₹ 30,000. Its Assets would be :
 - (1) ₹ 10,000
 - (2) ₹ 20,000
 - (3) ₹ 30,000
 - (4) ₹ 50,000

1. फर्नीचर खरीद को डेबिट किया जाएगा :
 - (1) फर्नीचर खाते में
 - (2) माल खाते में
 - (3) रोकड़ खाते में
 - (4) परिसर खाते में

2. लेजर फोलियो कॉलम होता है :
 - (1) जर्नल में
 - (2) व्यापार खाते में
 - (3) विनिर्माण खाते में
 - (4) लाभ-हानि खाते में

3. निम्नलिखित में से कौन-सा खाता आय-व्यय खाता है ?
 - (1) कृष्णा का खाता
 - (2) कृष्णा से ऋण खाता
 - (3) मज़दूरी खाता
 - (4) वाहन खाता

4. किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक होता है कि किसी एक लेखा वर्ष से दूसरे लेखा वर्ष तक एक ही लेखा विधि का प्रयोग होना चाहिए ?
 - (1) एकरूपता
 - (2) मिलान
 - (3) अनुदारवादिता
 - (4) महत्त्व

5. अनुदारवादिता की संकल्पना के अनुसार प्रावधान किया जाता है :
 - (1) सभी संभावित आय तथा हानियों का
 - (2) सभी संभावित आय का परन्तु किसी हानि का नहीं
 - (3) सभी संभावित हानियों का परन्तु किसी संभावित आय का नहीं
 - (4) किसी संभावित लाभ तथा हानि का नहीं

6. एक व्यवसाय की देयताएँ ₹ 20,000 हैं तथा मालिक की ईक्विटी ₹ 30,000 है। इसकी परिसम्पत्तियाँ होंगी :
 - (1) ₹ 10,000
 - (2) ₹ 20,000
 - (3) ₹ 30,000
 - (4) ₹ 50,000

7. Closing Stock is valued at :
- (1) Cost Price
 - (2) Market Price
 - (3) Cost Price or Market Price, whichever is lower
 - (4) Cost Price or Market Price, whichever is higher
8. Preliminary expenses is an example of :
- (1) Capital expenditure
 - (2) Revenue expenditure
 - (3) Deferred Revenue expenditure
 - (4) Capital loss
9. Which one of the following items is taken as purchases for the purposes of the Trading Account ?
- (1) Good purchased for cash and credit
 - (2) Good purchased for cash only
 - (3) Good and Fixed assets purchased for cash
 - (4) Good and Fixed assets purchased for credit
10. Which one of the following is **not** a Personal Account ?
- (1) Kamal's Account
 - (2) Loan from Aman's Account
 - (3) Indian Bank Account
 - (4) Purchases Account
11. Nominal Accounts are related to :
- (1) Fixed Assets
 - (2) Expenses and Losses
 - (3) Individuals
 - (4) Cash
12. Journalizing is the process of recording the business transactions in the :
- (1) Book of Prime Entry
 - (2) Balance Sheet
 - (3) Petty Cash Book
 - (4) All of the above

7. अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है :
- (1) लागत मूल्य पर
 - (2) बाज़ार मूल्य पर
 - (3) लागत मूल्य या बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो
 - (4) लागत मूल्य या बाज़ार मूल्य, जो भी अधिक हो
8. प्रारम्भिक व्यय उदाहरण है :
- (1) पूँजीगत व्यय का
 - (2) आयगत व्यय का
 - (3) आस्थगित आयगत व्यय का
 - (4) पूँजीगत हानि का
9. निम्नलिखित में से कौन-सा मद व्यापार खाते के सम्बन्ध में क्रय लिया जाएगा ?
- (1) माल का नकद तथा उधार क्रय
 - (2) माल का केवल नकद क्रय
 - (3) माल तथा स्थायी परिसम्पत्तियों का नकद क्रय
 - (4) माल तथा स्थायी परिसम्पत्तियों का उधार क्रय
10. निम्नलिखित में से कौन-सा खाता व्यक्तिगत खाता **नहीं** है ?
- (1) कमल का खाता
 - (2) अमन से ऋण खाता
 - (3) भारतीय बैंक खाता
 - (4) क्रय खाता
11. नाममात्र खाते संबंधित हैं :
- (1) स्थायी परिसम्पत्तियों से
 - (2) व्ययों एवं हानियों से
 - (3) व्यक्तियों से
 - (4) रोकड़ से
12. रोज़नामचा भरना व्यावसायिक लेनदेनों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है :
- (1) मूल प्रविष्टि की बही में
 - (2) बैलेंस शीट में
 - (3) खुदरा रोकड़ बही में
 - (4) उपर्युक्त सभी

13. Which one of the following accounts normally does **not** show a debit balance ?
- (1) Assets Account
 - (2) Debtors' Account
 - (3) Expenses Account
 - (4) Liabilities Account
14. A system of advancing a fixed amount to the Petty Cashier periodically is called :
- (1) Single entry system
 - (2) Double entry system
 - (3) Imprest system
 - (4) Mercantile system
15. A cheque payable at the counter of the Bank without identification is called :
- (1) Bearer cheque
 - (2) Crossed cheque
 - (3) Order cheque
 - (4) Specific cheque
16. An expenditure incurred on repairs of Machinery was debited to Machinery Account. In rectifying entry, it would affect :
- (1) Cash Account only
 - (2) Machinery Account only
 - (3) Machinery Account and Machine Repair Account
 - (4) Machinery Repair Account and Cash Account
17. Trading Account is prepared to find out :
- (1) Cost of Sales
 - (2) Direct Expenses
 - (3) Gross Profit
 - (4) Cost of Production
18. Which one of the following items is **not** charged to Profit and Loss Account ?
- (1) Salary
 - (2) Bad debts
 - (3) Income tax collected
 - (4) Depreciation on assets
19. All the indirect expenses are shown in :
- (1) Trading Account
 - (2) Profit and Loss Account
 - (3) Manufacturing Account
 - (4) Capital Account

13. निम्नलिखित में से कौन-से खाते सामान्यतः डेबिट शेष **नहीं** दर्शाते हैं ?
- (1) परिसम्पत्ति खाते (2) देनदारों के खाते
(3) व्यय खाते (4) देयताओं के खाते
14. ऐसी पद्धति, जिसके अंतर्गत पेटी कैशियर को समय-समय पर एक निश्चित राशि पेशगी के रूप में दी जाती है, कहलाती है :
- (1) इकहरी प्रविष्टि पद्धति
(2) दोहरी प्रविष्टि पद्धति
(3) अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) पद्धति
(4) व्यापारिक (मरकेन्टाइल) पद्धति
15. वह चेक जो बैंक के काउंटर पर बिना शिनाख्त के भुनाया जाता है, कहलाता है :
- (1) धारक चेक (2) रेखित चेक
(3) आदेश चेक (4) विनिर्दिष्ट चेक
16. मशीनरी की मरम्मत पर किए गए व्यय को मशीनरी खाते में डेबिट किया गया। सुधार की प्रविष्टि में, यह प्रभावित करेगा :
- (1) केवल रोकड़ खाता
(2) केवल मशीनरी खाता
(3) मशीनरी खाता तथा मशीन मरम्मत खाता
(4) मशीनरी मरम्मत खाता तथा रोकड़ खाता
17. व्यापार खाता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है :
- (1) विक्रय लागत
(2) प्रत्यक्ष व्यय
(3) सकल लाभ
(4) उत्पादन लागत
18. निम्नलिखित में से किस मद को लाभ-हानि खाते में **नहीं** दिखाया जाता है ?
- (1) वेतन
(2) डूबत ऋण
(3) आयकर संग्रहित किया
(4) परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास
19. सभी अप्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं :
- (1) व्यापार खाते में
(2) लाभ-हानि खाते में
(3) विनिर्माण खाते में
(4) पूँजी खाते में

- 20.** A statement showing Assets and Liabilities of the business as at the end of an Accounting Year is called :
- (1) Trial Balance
 - (2) Balance Sheet
 - (3) Ledger
 - (4) Journal Proper
- 21.** If Debit and Credit sides of Trial Balance do not tally, the difference is put against :
- (1) Suspense Account
 - (2) Profit and Loss Account
 - (3) Trading Account
 - (4) Adjustment Account
- 22.** Goodwill is a/an :
- (1) Tangible asset
 - (2) Wasting asset
 - (3) Tangible and Wasting asset
 - (4) Intangible asset
- 23.** Purchases Book is meant for recording :
- (1) All types of purchases
 - (2) Credit purchases of goods
 - (3) Cash purchases
 - (4) Cash and Credit purchases
- 24.** Which one of the following errors might upset the Trial Balance ?
- (1) Compensating errors
 - (2) Errors of complete omission
 - (3) Errors of wrong totalling
 - (4) Errors of commission
- 25.** The balance of Petty Cash Book is a/an :
- (1) Expense
 - (2) Income
 - (3) Asset
 - (4) Liability

- 20.** लेखा वर्ष के अंतिम दिन व्यवसाय की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को दिखाने वाला विवरण कहलाता है :
- (1) तलपट
 - (2) बैलेंस शीट
 - (3) लेजर
 - (4) मुख्य जर्नल
- 21.** यदि तलपट के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष का मिलान नहीं हो पाता है, तब अंतर को लिख दिया जाता है :
- (1) निलंबित खाते में
 - (2) लाभ-हानि खाते में
 - (3) व्यापार खाते में
 - (4) समायोजन खाते में
- 22.** ख्याति है :
- (1) मूर्त परिसम्पत्ति
 - (2) क्षय परिसम्पत्ति
 - (3) मूर्त एवं क्षय परिसम्पत्ति
 - (4) अमूर्त परिसम्पत्ति
- 23.** क्रय बही लेखा करने के लिए है :
- (1) सभी प्रकार के क्रय
 - (2) माल का उधार क्रय
 - (3) नकद क्रय
 - (4) नकद तथा उधार क्रय
- 24.** निम्नलिखित में से कौन-सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित कर सकती है ?
- (1) क्षतिपूरक अशुद्धि
 - (2) पूर्ण लोप (चूक) की अशुद्धि
 - (3) ग़लत जोड़ की अशुद्धि
 - (4) लेखाकार्य की अशुद्धि
- 25.** खुदरा रोकड़ बही का शेष है :
- (1) व्यय
 - (2) आय
 - (3) परिसम्पत्ति
 - (4) देयता

- 26.** Opening Stock is shown in the :
- (1) Trading Account
 - (2) Profit and Loss Account
 - (3) Profit and Loss Appropriation Account
 - (4) Balance Sheet
- 27.** Prepaid Insurance given in the Trial Balance will be shown in the :
- (1) Trading Account
 - (2) Manufacturing Account
 - (3) Balance Sheet
 - (4) Profit and Loss Account
- 28.** Outstanding Expenses given in Trial Balance will appear on the :
- (1) Debit side of Trading Account
 - (2) Credit side of Trading Account
 - (3) Liabilities side of Balance Sheet
 - (4) Assets side of Balance Sheet
- 29.** Prepaid Rent is a/an :
- (1) Loss
 - (2) Gain
 - (3) Liability
 - (4) Asset
- 30.** Printing and Stationery is charged to :
- (1) Trading Account
 - (2) Manufacturing Account
 - (3) Profit and Loss Account
 - (4) Balance Sheet
- 31.** Carriage Outwards shown in Trial Balance will be recorded in :
- (1) Trading Account
 - (2) Profit and Loss Account
 - (3) Manufacturing Account
 - (4) Balance Sheet

26. प्रारम्भिक स्टॉक दिखाया जाता है :

- (1) व्यापार खाते में
- (2) लाभ-हानि खाते में
- (3) लाभ-हानि विनियोजन खाते में
- (4) बैलेंस शीट में

27. पूर्वदत्त बीमा जो तलपट में दिया गया है, दिखाया जाएगा :

- (1) व्यापार खाते में
- (2) विनिर्माण खाते में
- (3) बैलेंस शीट में
- (4) लाभ-हानि खाते में

28. अदत्त (बकाया) व्यय जो तलपट में दिए गए हैं, दिखाए जाएंगे :

- (1) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में
- (2) व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में
- (3) बैलेंस शीट के देयता पक्ष में
- (4) बैलेंस शीट के परिसम्पत्ति पक्ष में

29. पूर्वदत्त किराया है :

- (1) हानि
- (2) लाभार्जन
- (3) देयता
- (4) परिसम्पत्ति

30. छपाई और स्टेशनरी को दर्शाया जाता है :

- (1) व्यापार खाते में
- (2) विनिर्माण खाते में
- (3) लाभ-हानि खाते में
- (4) बैलेंस शीट में

31. तलपट में दिखाए गए निर्गत वाहन व्यय को रिकॉर्ड किया जाएगा :

- (1) व्यापार खाते में
- (2) लाभ-हानि खाते में
- (3) विनिर्माण खाते में
- (4) बैलेंस शीट में

- 32.** A Bank Overdraft reflects :
- (1) Debit balance in the Cash Book
 - (2) Credit balance in the Pass Book
 - (3) Debit balance in the Pass Book
 - (4) Favourable balance in the Cash Book
- 33.** Bank Reconciliation Statement is prepared by :
- (1) Bank
 - (2) Creditors
 - (3) Auditors
 - (4) Customers of the Bank
- 34.** Current Liabilities do **not** include :
- (1) Bills Payable
 - (2) Creditors
 - (3) Outstanding Expenses
 - (4) Debentures
- 35.** Purchase of goods from 'X' for cash should be credited to :
- (1) Purchase Account
 - (2) Cash Account
 - (3) Sales Account
 - (4) 'X's Account
- 36.** Which one of the following is **not** a Nominal Account ?
- (1) Commission Account
 - (2) Stationery Account
 - (3) Creditors' Account
 - (4) Bad Debts Account
- 37.** What shall be the amount of Capital if Cash is ₹ 5,000, Furniture ₹ 12,000, Stock ₹ 30,000 and Creditors ₹ 6,000 ?
- (1) ₹ 41,000
 - (2) ₹ 47,000
 - (3) ₹ 53,000
 - (4) ₹ 40,000

32. बैंक ओवरड्राफ्ट दर्शाता है :
- (1) रोकड़ बही में डेबिट शेष
 - (2) पास बुक में क्रेडिट शेष
 - (3) पास बुक में डेबिट शेष
 - (4) रोकड़ बही में अनुकूल शेष
33. बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है :
- (1) बैंक के द्वारा
 - (2) लेनदार के द्वारा
 - (3) अंकेक्षक के द्वारा
 - (4) बैंक के ग्राहकों के द्वारा
34. चालू देयताओं में शामिल *नहीं* हैं :
- (1) देय बिल
 - (2) लेनदार
 - (3) अदत (बकाया) व्यय
 - (4) ऋण-पत्र (डिबेंचर्स)
35. 'X' से नकद माल के क्रय के लिए क्रेडिट किया जाना चाहिए :
- (1) क्रय खाता
 - (2) रोकड़ खाता
 - (3) विक्रय खाता
 - (4) 'X' का खाता
36. निम्नलिखित में से कौन-सा नाममात्र खाता *नहीं* है ?
- (1) कमीशन खाता
 - (2) स्टेशनरी खाता
 - (3) लेनदार का खाता
 - (4) डूबत ऋण खाता
37. यदि रोकड़ ₹ 5,000, फर्नीचर ₹ 12,000, स्टॉक ₹ 30,000 और लेनदार ₹ 6,000 है, तो पूँजी की राशि क्या होगी ?
- (1) ₹ 41,000
 - (2) ₹ 47,000
 - (3) ₹ 53,000
 - (4) ₹ 40,000

- 38.** Which one of the following equations is correct ?
- (1) Assets = Capital + Liabilities
 - (2) Assets = Capital – Liabilities
 - (3) Assets = Liabilities – Capital
 - (4) Capital = Assets × Liabilities
- 39.** What will be the effect of wages paid on Accounting Equation ?
- (1) Cash will decrease
 - (2) Cash will increase
 - (3) Capital will decrease
 - (4) Cash and Capital both will decrease
- 40.** Credit Sales of goods to Ram should be debited to :
- (1) Ram's Account
 - (2) Sales Account
 - (3) Goods Account
 - (4) Cash Account
- 41.** ₹ 600 paid as wages for building a Cycle Shed should be debited to :
- (1) Cycle Shed Account
 - (2) Cash Account
 - (3) Repair Account
 - (4) Wages Account
- 42.** Debit balance of Suspense Account will be shown on :
- (1) The Credit side of Trading Account
 - (2) The Debit side of Trading Account
 - (3) The Assets side of Balance Sheet
 - (4) The Liabilities side of Balance Sheet
- 43.** Patents appears on :
- (1) The Debit side of Trading Account
 - (2) The Credit side of Trading Account
 - (3) The Assets side of Balance Sheet
 - (4) The Liabilities side of Balance Sheet
- 44.** Business includes :
- (1) Industry and commerce
 - (2) Industry and aids to trade
 - (3) Trade only
 - (4) Trade and aids to trade

38. निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है ?

- (1) परिसम्पत्तियाँ = पूँजी + देयताएँ
- (2) परिसम्पत्तियाँ = पूँजी - देयताएँ
- (3) परिसम्पत्तियाँ = देयताएँ - पूँजी
- (4) पूँजी = परिसम्पत्तियाँ × देयताएँ

39. लेखाकरण समीकरण पर मज़दूरी भुगतान का क्या प्रभाव होगा ?

- (1) रोकड़ घटेगा
- (2) रोकड़ बढ़ेगा
- (3) पूँजी घटेगी
- (4) रोकड़ एवं पूँजी दोनों घटेंगी

40. राम को उधार बेचे गए माल को डेबिट किया जाएगा :

- (1) राम के खाते में
- (2) विक्रय खाते में
- (3) माल खाते में
- (4) रोकड़ खाते में

41. एक साइकिल शेड बनाने पर मज़दूरी का ₹ 600 का व्यय भुगतान किया, इसे डेबिट किया जाना चाहिए :

- (1) साइकिल शेड खाते को
- (2) रोकड़ खाते को
- (3) मरम्मत खाते को
- (4) मज़दूरी खाते को

42. निलंबित खाते के डेबिट शेष को दिखाया जाएगा :

- (1) व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में
- (2) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में
- (3) बैलेंस शीट के परिसम्पत्तियाँ पक्ष में
- (4) बैलेंस शीट के देयताएँ पक्ष में

43. पेटेंट्स को दिखाया जाता है :

- (1) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में
- (2) व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में
- (3) बैलेंस शीट के परिसम्पत्तियाँ पक्ष में
- (4) बैलेंस शीट के देयताएँ पक्ष में

44. व्यवसाय में शामिल हैं :

- (1) उद्योग तथा वाणिज्य
- (2) उद्योग तथा व्यापार में सहायक कार्यकलाप
- (3) केवल व्यापार
- (4) व्यापार तथा व्यापार में सहायक कार्यकलाप

- 45.** The final step of Accounting Cycle is :
- (1) Trial Balance
 - (2) Journal
 - (3) Ledger
 - (4) Balance Sheet
- 46.** Expenses incurred during the regular course of business are called :
- (1) Capital expenditure
 - (2) Revenue expenditure
 - (3) Revenue loss
 - (4) Deferred revenue expenditure
- 47.** Manufacturing Account is prepared to find out :
- (1) Cost of goods sold
 - (2) Cost of goods produced
 - (3) Total cost per unit
 - (4) Net profit/Net loss
- 48.** Income received in advance will be shown in Balance Sheet as :
- (1) Fixed assets
 - (2) Current assets
 - (3) Current liability
 - (4) Long term liability
- 49.** The objective of preparing Balance Sheet is to know the :
- (1) Financial position of the business
 - (2) Net result of business activities
 - (3) Arithmetical accuracy of accounting work
 - (4) Cash balance
- 50.** Bad debts will be charged to :
- (1) Profit and Loss Account
 - (2) Manufacturing Account
 - (3) Trading Account
 - (4) Profit and Loss Appropriation Account

45. लेखाकरण चक्र का अंतिम सोपान है :
- (1) तलपट
 - (2) जर्नल
 - (3) लेजर
 - (4) बैलेंस शीट
46. व्यापार के सामान्य संचालन के दौरान किए जाने वाले व्ययों को कहा जाता है :
- (1) पूँजीगत व्यय
 - (2) आयगत व्यय
 - (3) आयगत हानि
 - (4) आस्थगित आयगत व्यय
47. विनिर्माण खाता बनाया जाता है :
- (1) विक्रय किए गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए
 - (2) उत्पादित माल की लागत ज्ञात करने के लिए
 - (3) कुल लागत प्रति इकाई ज्ञात करने के लिए
 - (4) निवल लाभ/निवल हानि ज्ञात करने के लिए
48. अग्रिम प्राप्त हुई आय को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा :
- (1) स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप में
 - (2) चालू परिसम्पत्तियों के रूप में
 - (3) चालू देयता के रूप में
 - (4) दीर्घकालीन देयता के रूप में
49. बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य है :
- (1) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना
 - (2) व्यावसायिक क्रियाकलापों का शुद्ध परिणाम ज्ञात करना
 - (3) लेखाकार्य की गणितीय शुद्धता ज्ञात करना
 - (4) रोकड़ शेष ज्ञात करना
50. डूबत ऋण चार्ज किए जाते हैं :
- (1) लाभ-हानि खाते को
 - (2) विनिर्माण खाते को
 - (3) व्यापार खाते को
 - (4) लाभ-हानि विनियोजन खाते को

SPACE FOR ROUGH WORK

रफ़ कार्य के लिए जगह